Action Construction Equipment Limited

Corporate & Registered Office

Dudhola Link Road, Dudhola, Distt. Palwal-121102, Haryana, India



Scrip Code: 532762

Date: July 31, 2025

To,

The Manager Listing BSE Limited 5th Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai-400001

The Manager Listing
National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,

CM Quote: ACE

Bandra (E), Mumbai-400051

Subject: Newspaper Advertisement for transfer of equity shares to the Demat Account of IEPF Authority pursuant to the provision of section 124 of the Companies Act, 2013.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with para A of part A of Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the following documents as required under section 124 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016:

- 1. Copy of Specimen letter dated July 29, 2025 sent to the shareholders.
- 2. Copy of the newspaper advertisement published in the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on July 31, 2025.

This is for your kind reference and record.

Thanking you,

Yours faithfully

For Action Construction Equipment Limited

Anil Kumar Company Secretary



Copy of Specimen letter

Dear Shareholder (s),

SUB: <u>Transfer of unpaid dividend/ equity shares to the investor education and</u> protection fund (iepf) authority

Kind Attention of the shareholders is drawn towards the unpaid amount out of the Final dividend for the financial year 2017-18 which was declared at Annual General Meeting (AGM) of the Company held on **September 28, 2018** and is required to be deposited in IEPF Account on **October 31, 2025.**

Now, we wish to inform you that, in terms of provisions of Section 124 (6) and other applicable provisions the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the IEPF Rules), the dividend which remains unpaid/unclaimed for a period of 7 consecutive years is required to be transferred by the Company to IEPF, established by the Central Government and all underlying shares in respect of which dividend remains unpaid/unclaimed for 7 consecutive years also needs to be transferred to Demat account of IEPF Authority along with such unpaid dividend.

As per our records, you have not encashed any dividend, declared by the Company during the last 7 years. Accordingly, you must claim for unpaid dividend. In case the Company does not receive necessary documents required for claiming unpaid dividend before 15th October 2025, the Company shall, in order to comply with the requirements of the Act and IEPF Rules, transfer the shares to the Demat Account of IEPF Authority on October 31, 2025, as per the procedure set out in the Act and IEPF Rules without any further notice to the shareholder. The Shareholder may note that once the dividend and their corresponding shares are credited to the Demat Account of IEPF Authority, no claim shall lie against the Company in respect thereof, pursuant to the Act and IEPF Rules.

The Company has also uploaded complete details of such shareholder(s) and shares due to be transferred to the IEPF Authority on its website www.ace-cranes.com. The Shareholder is requested to refer to company's website www.ace-cranes.com to verify the details of unclaimed dividends and the shares liable to be transferred to the IEPF Authority.

The shareholder(s) holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority, may note that upon transfer of shares to IEPF Authority the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of shares held in Demat Form, to the extent of shares liable to be transferred shall stand debited from the shareholder's account.

Shareholder may also note that both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the IEPF Authority including all the benefits accruing on such shares, if any, can be claimed from the IEPF Authority by making an application in form IEPF-5 online at www.iepf.gov.in and sending the physical copy of the form along with the required supporting documents, specified in the said form IEPF 5 to the Company/ RTA for verification of your claims.

For any queries on the aforesaid subject the shareholder is requested to contact the Company or Company's Registrar and Share Transfer Agent with a request giving necessary details (i.e. Folio no, DP-ID & client ID no. (if any), current address and contact

numbers & details of Non-receipt of the Dividend Warrant etc.) at the earliest at the following addresses:-

Please feel free to contact the Company/ Skyline Financial Services Private Limited. in case you have any queries at their following address/email/telephone number:

Company Secretary & Compliance Officer Action Construction Equipment Limited Dudhola Link Road, Dudhola, Distt. Palwal-Haryana-121102 Phone No. 01275-280103/280111 Email:cs@ace-cranes.com Skyline Financial Services Private Limited D-153/A, 1st floor, Phase I, Okhla Industrial Area, New Delhi- 110020 Phone: +91 011 2681 2682-83 (Board)

Email: <u>admin@skylinerta.com</u> Website: <u>www.skylinerta.com</u>

Thanking You
Yours faithfully,

For ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED

Anil Kumar COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

NOTICE OF LOSS OF SHARES TCI EXPRESS LIMITED

L62200TG2008PLC061781

Read. Office: Flat No. 306-307, 1-8-273, 3º Floor, Ashoka Bhoopal Chambers S. P. Road, Secunderabad - 500 003 (Telangana) Ph No.: 040-27840104, E-mail: secretarial@tciexpress.in

Notice is hereby given that the Certificate(s) for the under mentioned equity shares of the company "TCI Express Limited" have been lost/misplaced and the holder(s) of the said Equity shares have applied to the Company to issue duplicate share certificate(s).

Any person who has a claim in respect of the said Shares should lodge the same with the Company a its Registered Office within 21 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate Certificate(s) to the aforesaid applicants without any further intimation, else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) to the aforesaid applicants without any further intimation.

Sr.	FOLIO NO.	SHAREHOLDER	CERTIFICATE	DISTINCTIVE	NO. OF
NO.		NAME	NO.	NO.	SHARES
01.	TEL0019716	MANOHAR LAL BANSAL	19716	35729379 - 35729448	70

LAKE SHORE REALTY LIMITED (FORMERLY MAHAAN FOODS LIMITED)

Regd. Office: 406, 04th Floor, Worldmark-2, Aerocity, New Delhi-110037 (CIN: L68100DL1987PLC350285), Tel: 011-43107200, E-mail: csmfl@mahaanfoods.com, Website: www.mahaanfoods.com

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUEST OF PHYSICAL SHARES Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July 2025 all shareholders are hereby informed that a special Window is being opened for a period of simonths, from 7th July 2025 to 6th January 2026 to facilitate re-lodgement of transfer requests o

This facility is available only for Transfer Deeds lodged prior to 1st April 2019 and which wer rejected, returned, or not attended to, due to deficiencies in documents/process/or otherwise investors who have missed the earlier deadline of 31st March 2021, are encouraged to take advantage of this opportunity, by furnishing the necessary documents to the Company's Registral & Share Transfer Agent ('RTA') i.e. M/s. Alankit Assignment Limited, Alankit House, 4E/2 Jhandewalar Extension, New Dethi-110055, INDIA, E-mail: info@alankit.com During this period, the securities that are re-lodged for transfer shall be issued only in demat mode. While

re-lodging the transfer request with the RTA, the Investor must have a demat account and provide the Client Master List along with the transfer documents, Share Certificate and other relevant documents Transfer request submitted after 6th January 2026 will not be accepted by the Company/RTA By Order of Board of Directors For Lake Shore Realty Limited

Date: 29th July 2025

Place: New Delhi

Ankit Agarwa Company Secretary

Truhome

GLOBUS POWER GENERATION LIMITED

CIN: L40300RJ1985PLC047105 Regd. Office: Shyam House, Plot No. 3, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur-302021 Email Id: globuscdl@gmail.com Website: www.gpgl.in

Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

We draw your attention to SEBI Circular bearing reference SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, pertaining to the opening of a special window for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to April 01, 2019 and were rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise. The special window will be open for a period of six months from July 07,

2025 till January 06, 2026. During this period, the securities that are relodged for transfer after rectification of errors (including those requests that are pending with the Bank / Registrar and Share Transfer Agent (RTA), as of July 02, 2025) will be issued only in demat mode, once all the documents are found in order by RTA. The lodger must have a demat account and provide its Client Master List

('CML'), along with the transfer documents and share certificate, while

lodging the documents for transfer with RTA. Transfer requests submitted after January 06, 2026, will not be accepted by the Bank/RTA.

For Globus Power Generation Limited

Abhay Khanna Whole-time Director DIN: 02153655

SHYAM TELECOM LIMITED

CIN: L32202RJ1992PLC017750 Regd. Office: Shyam House, Plot No. 3, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur-302021 Email Id: shyamtelecom.cs@gmail.com Website: www.shyamtelecom.com

Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

We draw your attention to SEBI Circular bearing reference SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, pertaining to the opening of a special window for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to April 01, 2019 and were rejected/returned/not attended to due to deficiency in the

The special window will be open for a period of six months from July 07, 2025 till January 06, 2026. During this period, the securities that are relodged for transfer after rectification of errors (including those requests that are pending with the Bank / Registrar and Share Transfer Agent (RTA), as of July 02, 2025) will be issued only in demat mode, once all the documents are found in order by RTA.

The lodger must have a demat account and provide its Client Master List ('CML'), along with the transfer documents and share certificate, while lodging the documents for transfer with RTA.

Transfer requests submitted after January 06, 2026, will not be accepted by the Bank/RTA.

For Shyam Telecom Limited

Sd/-Kamini

Company Secretary & Compliance Officer

SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED Regd. Office- 129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi - 110035

Corporate Office: 7th Floor, Corporate Office Tower, Ambience Mall, N.H.48, Gurugram-122002

E-mail: info@sainik.org Website: www.sainikfinance.com CIN: L26912DL1991PLC045449

Telephone No.- 011-28315036/0124-2719000 Fax No.- 011-28315044/ 0124-2719100 NOTICE OF SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER

REQUEST OF PHYSICAL SHARES Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2nd July, 2025. Shareholders are hereby informed that a Special Window has been opened

only for relodgement of transfer deeds which were lodged prior to the deadline of 1s April. 2019 and rejected/returned/not attended, due to deficiency in the documents process or other reasons. This relodgement window shall remain open for a period o six months i.e. from 7th July, 2025 till 6th January, 2026 During this period, the shares/securities that are re-lodged for transfer including those requests that are pending with the Company shall be processed and issued

only in dematerialized form, subject to verification and approval of all documents by the Company and the Registrar and Share Transfer Agent, Indus Shareshree Private The lodger must have a demat account and provide its Client Master List ('CML'), along with the transfer documents and share certificate, while lodging the documents for

transfer with RTA. Transfer requests submitted after 6th January, 2026 will not be accepted by the Company/RTA. Shareholders are requested to send their transfer requests along with the require-

documents to tile following address: Indus Shareshree Private Limited

G-65. Bali Nagar New Delhi-110015

Place: Gurugram

Date: 30.07.2025

Place New Delhi

Tel. No.: 91 -11-47671200; Toll Free No.: 1800 3094001 Email Id: ippl@indusinvest.com

For Sainik Finance & Industries Limited

Piyush Garg Company Secretary

TIGER LOGISTICS (INDIA) LIMITED CIN: L74899DL2000PLC105817

Regd. Office: D-174, GF, Okhla Industrial Area, Phase-1 New Delhi 110020 Tel. No. 011-47351111, Fax: 011-26229671

Website: www.tigerlogistics.in, Email ID: csvishal@tigerlogistics.in NOTICE OF THE BOARD MEETING In accordance with Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 notice is hereby given that the meeting of Board of Directors is going to be held on Wednesday, 6th of August 2025 at the corporate office of the Company for the following agenda items: To consider and approve unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June

- To consider and approve the draft Director's Report.

To consider and approve the notice of AGM.

- To consider and fix the date, time and mode for forthcoming Annual General Meeting and other incidental and ancillary objects thereto.
- To consider the Appointment of scrutinizer and agency for the purpose of E-Voting. To appoint the Agency/facilitator to offer Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual means ("OVAM") to shareholders for AGM purpose.

To consider and approve other items as stated in agenda of the board meeting. Further as per the intimation given, Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended & Company's Code of Conduct to regulate, monitor and report the trading of securities of the company read with BSE Circular No. LIST/COMP/01/2019-20 dated 02.04.2019, the Trading Window for dealing in the securities of the Company was already closed for all "designated persons" of the Company from July 1st, 2025 till 48 hours after the declaration of the unaudited financial results of the

Company for the quarter ended 30th June, 2025 to the Stock Exchange (both days inclusive). The notice is also available on the website of the Company www.tigerlogistics.in and

website of the Stock Exchange www.bseindia.com. For Tiger Logistics (India) Limited

Date: 30.07.2025

Vishal Saurav Gupta **Company Secretary & Compliance Officer**

HIDERWAND HOB FINANCIAL SERVICES LIMITED NOTICE Registered Office: Radhika, 2nd Floor, Law Garden Road, Navrangpura, Ahemdabad, Guirat, Pin Code

380009 BRANCH OFFICE: HDB Financial Services Limited, Khasra No 47, Behind Ox Ford School

Whereas, The Authorised Officer Of Hdb Financial Services Limited Under The Securitization And Reconstruction Of Financial Assests And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 (64 Of 2002) And In Exercise Of Powers Conferred Under Section 13(12) Read With Rules 3 Of The Security Interes nforcement) Rules, 2002 Issued Demand Notice To The Borrower/s As Detailed Hereunder, Callino Upon The Borrower To Repay The Amount Mentioned In The Said Notice With All Costs, Charges And Expenses Till Actual Date Of Payment Within 60 Days From The Date Of Receipt Of The Same. The Said forrower/co-borrowers Having Failed To Repay The Amount, Notice Is Hereby Given To Borrower/co borrowers And The Public In General That The Undersigned In Exercise Of Powers Conferred On It Under Section 13(4) Of The Said Act R/w Rule 8 Of The Said Rules Has Taken Symbolic Possession Of The Property Described Hereunder On The Date Mentioned Alongwith. The Borrowers In Particular And Public In General Are Hereby Cautioned Not To Deal With The Property And Any Dealings With The

laimed Amount; Date Of Possession Are Given Herein Below NAME AND ADDRESS OF THE BORROWER/CO-BORROWER/GUARANTOR; 2) LOAN ACCOUNT NUMBER; 3) LOAN AMOUNT; 4) DATE OF DEMAND NOTICE; 5) CLAIMED AMOUNT IN INR 6) DETAILS OF SECURITIES; 7) DATE OF POSSESSION

Property Will Be Subject To. The Charge Of High Financial Services Limited For The Amount Specified

Herein With Future Interest, Costs And Charges From The Respective Date, Details Of Borrower/ Co borrowers/guarantors, Loan Account Number, Loan Amount, Details Of Security, Date Of Demand Notice,

Name Of The Borrower & Co-Borrowers: Convercis India Unit No. C-44, Sector-7, Noida Gautam Buddha Nagar Noida Noida-201301 Uttar Pradeshand Alsobuiltup First Floor, Without Roof Rights Prop. Bearing No. H-1/139. Budhela Residential Scheme, Vikas Puri Delhi-110018 Radhika Sharma 1/1, Block-1 Malviya Nagar, South Delhi, New Delhi - 110017 Mamta Mongia 1/1, Block-1 Malviya Nagar, South Delhi, New Delhi -110017 Karan Mongia 1/1, Block-1 Malviya Nagar, South Delhi, New Delhi -10017 LOAN ACCOUNT NO.: 42289356: LOAN AMOUNT:Rs.5000000/- (Rupees Fifty Lakhs Only) by the loan account number 42289356 DEMAND NOTICE DATE: 29.04.2025, AMOUNT CLAIMED: Rs. 5,222,017,33/- (Rupees Fifty Two Lakhs Twenty Two Thousand Seventeen and Paise Thirty Three Only) as of 29.04.2025 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc.: DETAILS OF SECURITY: All That Piece And Parcel Of Builtup First Floor Without Roof Rights in Built Up Property Bearing Plot No H-1/139 Land Area Measuring 166 Sq Meters Situated At Budhela Residential Scheme Vikas Puri, New Delhi Property Bounded As: East: Road 60 FEET, West: Service Lane, North: Plot No. 138, South: Plot No. 140. Date Of Possession :

Name Of The Borrower & Co-Borrowers: Tejinder Singh Sandhu 127 1st Floor Sant Nagar East Of Kallsh Sriniwaspuri SO South Delhi Delhi-110065 Jaspreet Kaur 127 1st Floor Sant Nagar East Of Kailash Sriniwaspuri Delhi-110065 Palwinder Singh 127 Ground Floor Sant Nagar East Of Kailash Delhi-110065 LOAN ACCOUNT NO.:14762999.14785881; LOAN AMOUNT:Rs. 16500000\(\rightarrow\) (Rupees One Crore Sixty Five Lakhs Only) by loan account number 14762999 and to the tune of Rs.5400000/-(Rupees Fifty Four Lakhs Only) by loan account number 14785881 DEMAND NOTICE DATE: 16.04.2025, AMOUNT CLAIMED: Rs. 19419235.93/- (Rupees One Crore Ninety Four Lakhs Nineteen Thousand Two Hundred Thirty Five and Paise Ninety Three Only) as of 16.04.2025and future ontractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc.: DETAILS OF SECURITY: All that piece and parcel of property bearing no 3, area measuring 200 sq rards out of khasra no 185/150, situated at garhi jharia maria, now known as sant negar, new delhi-10065. Date Of Possession: 28.07.2025 THE BORROWERS' ATTENTION IS INVITED TO PROVISIONS OF SUB-SECTION (8) OF SECTION

13 OF THE ACT, IN RESPECT OF TIME AVAILABLE TO REDEEM THE SECURED ASSET. FOR ANY QUERY PLEASE CONTACT MR. ARUN YADAV PHONE: 9350538386

/ MR. VIKAS ANAND (9711010384) Place:-Delhi. Sd/- For HDB Financial Services Limited. Date:31.07.2025

TRUHOME FINANCE LIMITED

(Formerly Known As Shriram Housing Finance Limited)

Website: http://www.truhomefinance.in

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the authorised officer of Truhome Finance Limited

(Formerly Know as Shriram Housing Finance Limited) under the Securitisation and

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of

2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with (Rule 3) of the

Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice to the Borrowers details

of which are mentioned in the table below to repay the amount mentioned in the notice

The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and

the public in general that the undersigned has taken POSSESSION of the property described

nerein below in exercise of powers conferred on him under Sub Section (4) of section 13 of

with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of

Truhome Finance Limited (Formerly Know as Shriram Housing Finance Limited) for an

Borrower's Name and Address

House in Shami Enclave, Shahadopur Ke Jhall, Badalpur, Distt- Gautambudh Nagar,

Also At: Village- Meharabad, Paschimi Mela Bala Bag, Shikohabad Distt- Firozabad,

Village- Meharabad, Paschimi Mela Bala Bag, Shikohabad Distt- Firozabad, Uttar

Also At: Plot No.76, Madhuban Enclave, Village -Chhapraula, Tehsil- Dadri, District-

Amount due as per Demand Notice

Rs. 32,77,000/- (Rupees Thirty Two Lakh Seventy Seven Thousand Only) in respect of Loan

Description of Mortgaged Property

Madhuban Enclave, Village -Chhapraula, Tehsil- Dadri, District- Gautam Budh Nagar, Uttar

Pradesh. Bounded By:- East:- Plot No.53, West:-Road 20 Feet Wide, North:- Plot No. 75,

TATA CAPITAL LIMITED

Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park,

Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013.

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

(As per Appendix IV read with Rule 8(1) of the Security Interest

Enforcement Rules, 2002)

This is to inform that Tata Capital Ltd.(TCL) is a non-banking finance company and incorporated

under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at Peninsula

Business Park: Tower A. 11th Floor, Gangatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 and

a branch office amongst other places at New Delhi ("Branch"). That vide Orders dated

24.11.2023, the National Company Law Tribunal (NCLT) Mumbai has duly sanctioned the

Scheme of Arrangement between Tata Capital Financial Services Limited ("TCFSL") and Tata

Cleantech Capital Limited ("TCCL") as transferors and Tata Capital Limited ("TCL") as transferee

under the provisions of Sections 230 to 232 read with Section 66 and other applicable provisions

of the Companies Act, 2013 ("said Scheme"). In terms thereof, TCFSL and TCCL (Transferor

Companies) along with its undertaking have merged with TCL, as a going concern, together with

all the properties, assets, assets, rights, benefits, interest, duties, obligations, liabilities

contracts, agreements, securities etc. w.e.f. 01.01.2024. In pursuance of the said Order and the

Scheme, all the facility documents executed by TCFSL and all outstanding in respect thereof

stood transferred to Applicant Company and thus the TCL is entitled to claim the same from the

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Tata Capital Ltd. under the

Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,

2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security

Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice - 23-04-2025 as below calling

upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of

The Borrowers, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers, in

particular and the public, in general, that the undersigned has taken Symbolic/Constructive

Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under

The Borrowers, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the

property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Tata Capital

Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges

[The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the

Amount &

Date of Demand

Notices

Rs.1,04,35,127/-

& 23.04.2025

Date of

Symbolic

Possession

29.07.2025

Act, inrespect of time available, to redeem the secured assets.1

1. AJAY BARUA S/o Bikash Ranjan Barua

SIDHARTH NAGAR, NEW DELHI-110014.

2. SMT. JHUMA BARUA WIO AJAY BARUA

SIDHARTH NAGAR, NEW DELHI-110014

NO.1250 ON PAGES 179-180 REGISTERED ON 12/10/2004.

EXTN, NEW DELHI-110014

Name of Obligor(s)/ Legal

Heir(s)/Legal Representative (s)

Flat No. 226-B, POCKET C, Ist FLOOR, SIDHARTH

EXTENSION, NEW DELHI-110014 MOB: +91-

9811272730, Email: BARUA@HOTMAIL.COM

ALTO AT: PLOT NO. D-20, BASEMENT

Flat No. 226-B. POCKET C. Ist FLOOR, SIDHARTH

ALSO AT: PLOT NO. D-20, BASEMENT

Description of Property: PROPERTY: 1 - FLAT NO 226 B IN POCKET C, SITUATED AT

SIDHARTHA EXTENSION, NEW DELHI FIRST FLOOR DELHI 110014. MORE PARTICULARY

MENTIONED IN CONVEYANCE DEED DATED 11/10/2004 DULY REGISTERED IN SUB

REGISTRAR OF ASSURANCES AS DOCUMENT NO.8640, IN BOOK NO. I, VOLUME

PROPERTY: 2 - MCD NO. D-20, SIDHARTH NAGAR, WITH LAND MEASURING ABOUT 130

SQ YARDS, UNDERNEATH COMPRISED IN KHASRA NO 248, OF VILLAGE KILOKARI ON

THE BASIS OF SALE DEEDS REGISTERED IN THE OFFICE OF SUB REGISTRAR-V, NEW

DELHI (1) DOCUMENTS 10321, IN ADDL. BOOK, NO.1, VOLUME NO.5164, ON PAGES 25

TO 34, ON 07-07-2005, AND (III) DOCUMENT NO.18602, ADDL BOOK NO.1, VOLUME

NO.5637 ON PAGES 01 TO 10 ON 23-11-2005 VIDE SALE DEED EXECUTED

Sd/- Authorised Officer- Truhome Finance Limited

(Earlier Known as Shriram Housing Finance Limited)

Date of Demand Notice -13-May-2025 Date of Symbolic possession - 29-Jul-2025

Residential Open Plot No.76, Khasra No.607 KH, area admeasuring 100 Sqr., Yrds.,

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of

Act read with rule 8 of the security Interest enforcement) rules, 2002 on 29-Jul-2025.

within 60 days from the date of receipt of the said notice.

amount as mentioned herein below and interest thereon.

Mr. Satyabir S/o Sh. Mevaram

Uttar Pradesh-203201

Uttar Pradesh-205135.

Mrs. Nema W/o Sh. Satyabir

Date of NPA - 06-May-2025

Ramanand Gaur, South:- Plot No.77

Borrowers/Co-Borrowers) in terms thereof.

Section 13(4) read with Rule 8 of the said Act.

costs etc. from date of demand notice.

Loan

Account

No(s).

5800999

5827661

Date: 31.07.2025

Place: Delhi

Place : Gautam Budh Nagar

Date: 29-07-2025

Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201009.

Account No. SHLHGPRK0000758 as on 07-May-2025

All that part and parcel of the properties bearing No.

the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.]

Also At: Plot No.76, Madhuban Enclave, Village -Chhapraula,

Tehsil- Dadri, District- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201009.

Reg.Off.: Srinivasa Tower, 1st Floor, Door No. 5, Old No.11,

Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051

2nd Lane, Cenatopha Road, Alwarpet, Teynampet, Chennai-600018

Head Office. Level 3, Wockhardt Towers, East Wing C-2, G Block,

LAGROWTH ASSOCIATES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) (FORMERLY KNOWN AS MONTAGE SALES PRIVATE LIMITED) CIN: U51909DL2019PTC354266

Registered Office: B-26, B-Block Jhilmil Industrial Area Delhi, DL-110095 14th E-AUCTION SALE NOTICE UNDER INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016

important Note: The Sale Notice dated 30.07.2025, issued in relation to the 14th E-Auction, stands cancelled and shall be treated as null and void. The Sale Notice published on 31.07.2025 shall be deemed

Notice is hereby given to the public in general under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and the egulations made thereunder that the set of assets of the Corporate Debtor is being proposed to be sol ollectively as per Regulation 32(c) of the insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process egulations, 2016, on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURS! BASIS" and as such, the said proposition for disposition is without any kind of warranties and indemnities. The bidding of the assets stated in the below table shall take place through online e-auction service provider M/s SB Alliance Private Limited via website https://ibbi.baanknet.com or https://www.ebkray.in Submission of Requisite Forms, Affidavits, From 31.07.2025 to 30.08.2025 on or before 6.00

Declaration etc. by the Prospective Bidder. Refundable participation Deposit Amount to be Refundable participation Deposit of Rs. 5 Lakhs is submitted along with Bid Application Form required to be submitted by the prospective applicants From 31.07.2025 to 29.08.2025 (11 AM to 06 PM) nspection Date and Time 30.08.2025 on or before 06.00 P.M. ast Date For Submission of EMD Date and Time of Auction 02:09:2025 between 03:00 P.M. to 05:00 P.M. (with an unlimited extension of 5 min each) Reserve Price (in INR) EMD (in INR)

Following set of assets are available for sale in e-auction as collectively as per Regulation 32(c) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India 40,01,500.00 4,00,15,000.00 (Liquidation Process) Regulation, 2016: Set 1: Trade Receivables and a Computer Interested applicants may refer to the Complete E-auction process document containing terms and

conditions of the 14th E-Auction available on the e-auction platform. https://lbbi.baanknet.com. or https://www.ebkray.in and on the Corporate Debtor website, www.lagrowthassociates.co.in, The Liquidator has the absolute right to accept or reject or cancel any bid or extend or modify any terms of the E-Auction at any time without assigning any reason. For any Technical assistance please call on PSB Alliance Private Limited HELP DESK Contact No:+91-8291220220 E-mail: support.ebkray@psballiance.com or e-mail at cirp.lagrowthapl@gmail.com or contact Ms, Isha Arora (Team Member of Liquidator) at Mob: +91 8130249927

> Soniya Gupta Liquidator

In the matter of M/s Lagrowth Associates Private Limited (Formerly known as Montage Sales Private Limited) Date: 31.07.2025 Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N01155/2021-2022/13863 AFA valid till 30th June, 2026 Place: New Delhi

Registered Address with IBBI: C-501, SHREE BALAJI CGHS LTD. PLOT NO. 37, SECTOR-6, DWARKA, NEW DELHI - 110075

Project-specific Address of Liquidator: Unit No. 208 & 209, 2nd floor, Agarwal Dwarka Plaza, Plot No. 6, LSC Market, Sector-6, Dwarka, New Dehi-110075 Email: cirp.lagrowthapl@gmail.com Regd. Email ID with IBBI: ipsoniyag@gmail.com | Contact No: +91 9811287070

TATA CAPITAL LIMITED Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, TATA Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013.

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) (As per Appendix IV read with Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

This is to inform that Tata Capital Ltd.(TCL) is a non-banking finance company and incorporated

under the provisions of the Companies Act. 1956 and having its registered office at Peninsula Business Park, Tower A. 11th Floor, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 and a branch office amongst other places at New Delhi ("Branch"). That vide Orders dated 24.11.2023, the National Company Law Tribunal (NCLT) Mumbai has duly sanctioned the Scheme of Arrangement between Tata Capital Financial Services Limited ("TCFSL") and Tata Cleantech Capital Limited ("TCCL") as transferors and Tata Capital Limited ("TCL") as transferee under the provisions of Sections 230 to 232 read with Section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("said Scheme"). In terms thereof, TCFSL and TCCL (Transferor Companies) along with its undertaking have merged with TCL, as a going concern, together with all the properties, assets, assets, rights, benefits, interest, duties, obligations, liabilities, contracts, agreements, securities etc. w.e.f. 01.01.2024. In pursuance of the said Order and the Scheme, all the facility documents executed by TCFSL and all outstanding in respect thereof stood transferred to Applicant Company and thus the TCL is entitled to claim the same from the [Borrowers/Co-Borrowers] in terms thereof.

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Tata Capital Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice - 29-04-2025 as below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

particular and the public, in general, that the undersigned has taken Symbolic/Constructive Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) read with Rule 8 of the said Act. The Borrowers, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Tata Capital

The Borrowers, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers, in

Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges costs etc. from date of demand notice. [The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the

Act, inrespect of time available, to redeem the secured assets.]

Loan Account No(s).	Name of Obligor(s)/ Legal Heir(s)/Legal Representative (s)	Amount & Date of Demand Notices	Date of Symbolic Possession
TCFLA03 59000012 663056	MR. JASBIR SINGH, Plot No. 3rd-B-9, Flat No. 4, Ground Floor, Nehru Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201001 MRS. ARVINDER KAUR, Plot No. 3rd-B-9, Flat No. 4, Ground Floor, Nehru Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201001	& 29.04.2025	29.07.2025

Description of Property: Flat number 4, HIG type ground floor (without terrace rights), which includes one drawing-cum-dining room, three bedrooms, one kitchen, toilet is constructed. The super area is 95.08 square meters, the covered area is 81.32 square meters, and the remaining open area is 148.17 square feet i.e, 13.76 square meters, which is built on plot number 3rd-B-9 Located in Nehru Nagar, Ghaziabad- 201001, more particularly described in sale deed dated 12.11.2021 executed by Mr. Sanjay Sharma in favour of Mrs. Arvinder Kaur, duly registered as Document No. 9271, Book No. I, Volume No. 18466, Pages 35 to 72, registered on 12.11.2021 in SRO-Ghaziabad-I. Bounded As; East : Plot No. 3rd - B/10, West : Plot No. 3rd - B/8, North Road 10 Ft wide, South ; Service Lane 10 Ft Date: 31.07.2025 Sd/- Authorised Officer

For Tata Capital Ltd. Place: Ghaziabad

AOB

ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED

CIN: L74899HR1995PLC053860 Regd. Office: Dudhola Link Road, Dudhola, Distt. Palwal-121102, Haryana

Phone: +91-1275-280111 (50 Lines), Fax: +91-1275-280133 Website: www.ace-cranes.com, Email Id:cs@ace-cranes.com NOTICE

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account

This notice is published pursuant to the provision of sub section (6) of the Section 124 of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 including any amendment and

To comply with the aforesaid provisions, the Company shall transfer all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more from FY 2017-2018 (Final Dividend) in the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF) as set up by the Central Government by the due date i.e. 31" October, 2025 as per Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 including any amendment and re-enactment

Accordingly, the Company has communicated all the concerned shareholders at their

address registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent (RTA) records, whose shares are liable to be transferred to relevant Account of IEPF Authority. The Company has also uploaded on its website www.ace-cranes.com, full details of containing names of such shareholders and their folio number or DP ID-Client ID with their shares liable to be transferred to the IEPF Account. The shareholders may please note that after the above shares which will be credited in the

DEMAT accounts of the IEPF Authority then such shares will not be available to the shareholder for sale or transfer or dealt with in any manner except as per the process and provisions as prescribed in the aforementioned rules of section 124(6) of the Companies Please also note that both the unclaimed dividends and corresponding shares including all

future benefits accruing on such shares, if any, once transferred to IEPF Authority can be claimed back from IEPF authority after following the procedure prescribed in the aforesaid The shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Demat Account, may note that the Company would issue the

duplicate share certificate(s), in lieu of original share certificate(s) held by the shareholders, after issue of duplicate shares certificates, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate shares certificates into Demat form and transfer in favour of Authority. In respect of shares held in demat form, the Company shall inform the depository by way of corporate action where the shareholders have their accounts for transfer in favour of the Authority. The concerned shareholders are requested to claim unclaimed dividend for the financial year 2017-2018 (Final Dividend) and onward by making an application to the

Company/RTA by 15" October, 2025, falling which their shares shall be transferred to IEPF Demat Account. For claiming the unclaimed dividend or in case you need any information/clarification, please write to Skyline Financial Services Private Limited, Registrar & Share Transfer Agent of the Company on email at admin@skylinerta.com; cs@ace-cranes.com. For Action Construction Equipment Limited

Anil Kumar

Date: July 30, 2025 Company Secretary Place: Palwal

> THE BUSINESS DAILY FOR DAILY BUSINESS

केन्ट्रा वैक Canara Bank 📣

ALIPUR BRANCH, #64/ 60 -61, NARELA ROAD, ALIPUR, NARELA ROAD ALIPUR DELHI 110036 Mob No. 7451989089 Email: cb19136@canarabank.com

calling upon the borrower to clear the dues in gold loan availed by him. The borrower had failed

Online Gold Auction Notice Whereas the authorized officer of CANARA BANK, ALIPUR BRANCH issued Sale notice(s)

to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned will conduct online auction of the gold ornaments strictly on "As is What is Basis" & "Whatever there is Basis" & "Without recourse Basis". The auction will be conducted online through https://egold.auctiontiger.net on 08.08.2025 at 12:00 PM to 03:00 PM Sr. Borrower -Gross Weight | Date of Inspection EMD account

No LAN & Net Weight | & EMD Date 07.08.2025 NAME: CANARA BANK 1. GURPREET 6.60 am. KAUR **EMD AMOUNT** ACCOUNT NO. 209272434 5.05 gm (164004310219) IFSC: CNRB0019136 Rs. 25,000 Please contact 6352634523 or 9023724780 for more information. Visit

https://egold.auctiontiger.net for detailed terms & conditions Sd/- Manager, Canara Bank

CSL FINANCE LIMITED **Regd. Office**: 410-412,18/12, 4th Floor, W.E.A,

Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 Corp. office: 716-717, 7th floor, Tower B. World Trade Tower, Noida, Sector-16, U.P.-201301 (CIN: L74899DL1992PLC051462: Tel: 0120-4290654:

Email: info@cslfinance.in; **Web**: www.cslfinance.in)

CSL Finance

NOTICE FOR COMPULSORY TRANSFER OF UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND & EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTORN EDUCATION AND PROTECTION FUND

Dear Shareholders(s)

We wish to inform you that pursuant to Section 124(5) and (6) of the Companies Act, 2013 (the "act"), read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer, and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time (including any statutory modification(s), enactment(s) thereof for the time being in force) (hereinafter referred to as "IEPF Rules") available on the website of Ministry of Corporate Affairs at www.iepf.gov.in has inter-alia, specified the manner for transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend along with the equity shares in respect of which dividend is unpaid or unclaimed for a period of seven years to Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government.

Shareholders who have not claimed their dividend for a period of seven years i.e. for the Financial Year 2017-18 and equity shares on which dividend has not been claimed for seven consecutive years i.e. for the Financial Year 2017-18 is/are liable to be transfer to IEPF as provided under the Companies Act, 2013 read with IEPF Rules. In compliance with the provisions of IEPF Rules read with Secretarial Standard on Dividend (SS-

3), the company has uploaded details i.e. Name and Folio No. /DPID-CLID of such shareholders whose dividend and equity shares are due for transfer to IEPF on its website www.cslfinance.in under Investors> Information for Shareholders Section. The Company shall initiate the transfer of equity shares to IEPF in respect of which dividend stands unpaid/unclaimed upto 15th September, We would further like to state that future dividend/benefit, if any, in respect of equity shares so

transferred shall also be credited to the IEPF. Upon transfer of equity shares and unpaid/unclaimed dividend to the IEPF, the claimant can claim those equity shares and unpaid/unclaimed dividend in accordance with the procedure and on submission of necessary forms and documents to the IEPF Authority.

ou are also hereby informed that upon transfer of equity shares and unpaid/unclaimed dividend

to IEPF, no claim shall lie against the Company/RTA. (IEPF Rules and web-form IEPF-5 for

claiming Refund of equity shares and dividend are available on the website of Ministry of Corporate Affairs at www.iepf.gov.in. In view of the above, you are once again requested to claim your unpaid/unclaimed dividend, if any

immediately on or before 15th September, 2025. Procedure for claim of unpaid/unclaimed dividend:

In case shareholders holding equity shares in demat form, please update your bank detail in your demat account and send updated client

please send form ISR-1, copy of PAN/PAN(s) (in case of joint holders), original cancelled cheque (name of 1st Holder printed on it) or copy of bank passbook master along with a request letter to having MICR Code, IFSC and A/c No., duly attested by the Bank Manager, Form ISR-2 (in case of signature mismatch with our records/or missing) and Form SH-13 or Form ISR-3 (which can be downloaded from the Website of RTAi.e. www.masserv.com.

In case shareholders holding shares in physical form,

In this regard the company has also sent letter(s) by ordinary post to the concerned shareholders at their registered address whose shares are liable to be transferred to IEPF In case you have any queries on the subject matter, you may contact our Registrar and

Share Transfer Agent: M/s MAS Services Limited T-34 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi- 110020

Tel: 011-26387281-83, FAX: 011-7384,

Email: invstor@masserv.com

For CSL FINANCE LIMITED Date: 30.07.2025

(Company Secretary & Compliance Officer) Place: Noida



CIN - L74899HR1962PLC002618, E-mail- cs@frickmail.com,

Ph. 0129-2275691-94, 2270546-47 : Fax: 0129-2275695 Web: www.frickweb.com NOTICE TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO THE DESIGNATED DEMAT ACCOUNT OF IEPF AUTHORITY

This Notice is published pursuant to the provisions of section 124 (6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time, the Company is mandated to transfer all the shares in the name of Investor Education and Provident Fund

in respect of which dividends have not been paid or claimed for seven consecutive years or Complying with the requirements set out in the said Rules, the Company and / or M/s MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited). Registrar and Share Transfer Agent of the Company https://linkintime.co.in/ have been communicating individually, for taking appropriate action, to the concerned shareholders

whose shares are liable to be transferred to the designated DEMAT account of the IEPF The Company has also uploaded full details of such shareholders and related equity shares due for transfer to the IEPF Demat Account on its website www.frickweb.com. Shareholders are requested to refer to https://frickweb.com/wp-

content/uploads/2025/07/IEPF-2-2023-24_AGM_21.09.24.pdf to verify the details of

unencashed dividends and the related equity shares liable to be transferred to the

designated Demat Account of IEPF. Shareholder may note that no claim shall lie against the Company and / or M/s MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited), Registrar and Share Transfer Agent of the Company, in respect of the equity shares and dividends thereof liable to be transferred and / or credited to the designated DEMAT Account of IEPF Authority. Subsequent to the transfer of the unclaimed dividends and related equity shares to the IEPF Authority, the eligible shareholder may however claim the ownership to his/her entitlement to the unclaimed dividend and related equity shares by making an application to the IEPF Authority in the Form IEPF-5, available at

Concerned shareholders holding equity shares in physical form and whose equity shares are liable to be transferred to the designated de-mat account of IEPF – as aforementioned, may note that the Company would be issuing duplicate equity share certificate(s) in lieu of the original held by them for the purpose of transfer of such equity share(s) to the designated demat account of IEPF as per the aforesaid IEPF Rules, 2016 and upon such issue, the original equity share certificates(s) which are registered in their name(s) will stand automatically cancelled and be deemed to be non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded as adequate notice in respect of issue of duplicate equity share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of equity shares to the designated demat account of IEPF.

For the equity shares held in demat form, the Company would inform respective depository of the shareholders by way of corporate action for transfer of such shares in favour of IEPF

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by October 31, 2025, the Company will with a view to adhering with the requirements of the aforesaid provisions of the Companies Act, 2013 read with relevant IEPF Rules, 2016, shall transfer the related equity share to the designated demat account of IEPF by the due date as per the procedure set out in the aforesaid provisions of the Act read with relevant IEPF Rules, 2016.

Private Limited), Noble Heights, 1st floor, Plot No NH-2, C-1 Block, LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi – 110058 (Unit: Frick India Limited)

21.5 Km., Main Mathura Road, Near NHPC Chowk. Faridabad - 121003 (Haryana) Phone: 0129-2275691-94, Fax: 0129-2275695 Email: cs@frickmail.com Fax: 0129-2275695

Amit Singh Tomar Company Secretary

epaper.financialexpress.com

Sd/- Authorised Officer

For Tata Capital Ltd.

New Delhi

Place: Faridabad

Date: July 31, 2025

ttp://www.iepf.gov.in/IEPF/corporates.html as per the procedure prescribed in the aforementioned IEPF Rules, 2016.

pursuant to the aforesaid IEPF Rules, 2016.

For any queries on the above matter, shareholders of the Company are requested to

M/s MUFG Intime India Private Limited Frick India Limited. (Formerly known as Linkintime India Mr. Amit Singh Tomar, Company Secretary,

Mr. Bharat Bhushan, Assistant Vice-President Tel: 011 - 4141 0592/93/94 Telefax:011-41410591 Email: delhi@in.mpms.mufg.com For and on behalf of Board of Directors

FRICK INDIA LIMITED

Membership No. A46813

Preeti Gupta

टूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध) **पंजीकृत कार्यालय :** श्रीनिवास टावर, प्रथम तल, डोर नंबर 5, पुराना नंबर 11, दूसरी लेन, सेनाटोफा रोड, अलवरपेट, तेयनामपेट, चेन्नई–600018 Truhome प्रधान कार्यालय : लेवल ३, वोकहार्ट टावर्स, ईस्ट विंग सी–२, जी ब्लॉक, FINANCE बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई—400051

सांकेतिक कब्जे की सूचना

विबसाइट : http://www.truhomefinance.in

जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने, ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) का प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के प्रावधानों के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें नीचे तालिका में वर्णित कर्जदारों से उक्त मांग सूचनाओं में वर्णित बकाया राशि चुकाने की मांग की गई थी। कर्जदार राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः कर्जदारों और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29-07-2025 को नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार ट्रहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) की नीचे वर्णित बकाया राशि + ब्याज के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार का नाम और पता

श्री सत्यबीर पुत्र श्री मेवाराम मकान , शमी एन्क्लेव, साधोपुर की झाल, बादलपुर, जिला गौतमबुद्ध नगर,

अन्य पता : प्लॉट नंबर 76, मधुबन एन्क्लेव, ग्राम छपरौला,

तहसील दादरी, जिला जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201009 अन्य पता : ग्राम मेहराबाद, पश्चिमी मेला वाला बाग, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश-205135

श्रीमती नेमा पत्नी श्री सत्यबीर

ग्राम मेहराबाद, पश्चिमी मेला वाला बाग, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद, अन्य पता : प्लॉट नंबर 76, मधुबन एन्क्लेव, ग्राम छपरौला,

तहसील दादरी, जिला जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201009

मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि ऋण खाता संख्या SHLHGPRK0000758 के तहत 07-05-2025 तक बकाया राशि रु. 32,77,000 / – (रूपये बत्तीस लाख सतहत्तर हजार मात्र)

मांग सूचना की तिथि - 13-05-2025 सांकेतिक कब्जा की तिथि - 29-07-2025 एनपीए की तिथि - 06-05-2025

बंधक सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय खुला प्लॉट नंबर 76, खसरा नंबर 607ख, क्षेत्रफल परिमाप 100 वर्ग गज, मधुबन एन्क्लेव, ग्राम छपरौला, तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, चौहद्दी – पूर्व प्लॉट नंबर 53, पश्चिम : 20 फीट चौडी रोड, उत्तर : प्लॉट नंबर 75, रामानंद गौड, दक्षिण प्लॉट नंबर 77

स्थान : गौतमबुद्ध नगर हस्ता. / – प्राधिकृत अधिकारी – टूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पहले श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध) तिथि : 29-07-2025

सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड

आर्य समाज रोड, करोल बाम, गई दिल्ली-110005 कॉर्पेरेट कार्यस्यः 716-717. सातवी मजिल. टावर बी. वर्लंड ट्रेड टावर, मीएडा, सेवटर-16, उत्तर प्रदेश-201301 (सीआईएन: L74899DL1992PLC051462).



 $T\Lambda T\Lambda$

दूरनावः 0120-4290654, इनेस: info@eslfinance.in; पेब : www.eslfinance.in)

कंपनी के गैरभुगतान /अदावा किए गए लाभांश और इक्विटी शेयरों के निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष(आईईपीएफ) में अनिवार्य हस्तांतरण हेत् सूचना

हम आपको सचित करना चाहते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की घारा 124(5) और (६) के साथ पठित, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा. लेखा परीक्षा, इस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है (किसी मी वैधानिक संशोधन, अधिनियमन सहित) (इसके बाद "आईईपीएफ नियम" के रूप में संदर्भित) कॉर्पीरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्र सरकार द्वारा रवापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निवि (आईईपीएफ) को सात साल की अवधि के लिए जिन शेयरधारकों ने इक्विटी शेयरों के साथ गैरभुगतान/दावा न किए गए लाभांश के इस्तांतरण के तरीके

जिन शेयरधारकों ने सात वर्षों की अवधि अर्थात वितीय वर्ष 2017-18 वो लिए अपने लामांश का दावा नहीं किया है और जिन इक्विटी शेयरों पर लगातार सात वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लाभाश का दावा नहीं किया गया है,एन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ आईईपीएफ नियमों के तहत प्रावधान के अनुसार आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जा सकता है।

लाभाश पर सचिवीय मानक (एसएस 3) के साथ पठित आईईपीएफ नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में,कंपनी ने अपनी वेबसाइट

www.cslfinance.in पर "निवेशकझ शेयरधारकों के लिए सुचना" अनुभाग के अंतर्गत उन शेयरधारकों का विवरण, अर्थात नाम और फोलियो संख्या / हीपीआईही-सीएलआईही, अपलोड कर दिया है जिनके लामांश और इविवटी शेयर आईईपीएफ को हस्तांतरित होने हैं। कंपनी 15 सितंबर 2025 तक उन इकिवटी शेयरों का आईईपीएफ को हस्तांतरण शुरू करेंगी जिनके संबंध में लाभांश का भूगतान नहीं किया गया है / दावा नहीं किया गया है)

हम यह भी बताना चाहेंगे कि इस प्रकार हस्तांतरित इक्विटी शेयरों के संबंध में भविष्य में मिलने वाला लाभांश / लाभ,यदि कोई हो, भी आईईपीएफ में जमा किया जाएगा।

इक्विटी शेयरों और गैरमुगतान/दावा न किए गए लामांश का आईईपीएफ में हस्तांतरण होने पर दावेदार प्रक्रिया के अनुसार और आईईपीएफ प्राधिकरण को आवश्यक प्रपत्र और दस्तावेज जमा करके उन इक्विटी शेयरों और गैरभुगतान/दावा न किए गए लाभांश का दावा कर सकता है। आपको यह भी सुचित किया जाता है कि आईईपीएफ में इक्विटी शेयरों और गैरम्गतान/दावा न

किए गए लागांश के हस्तांतरण पर कंपनी / आरटीए के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा। (इक्विटी शेयरों और लाभाश की बापसी का दावा करने के लिए आईईपीएफ नियम और वेब-फॉर्म आईईपीएफ-5 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की येवसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध हैं।) उपरोक्त के मद्देनजर, आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि आप अपने गैरभूगतान/अदावाकृत लामांश, यदि कोई हों, का दावा 15 सितंबर, 2025 को या उससे पहले तुरंत करें।

गैरमुगतान/अदावाकृत लाभांश के दावे की प्रक्रियाः

यदि शेयरधारक डीमैट रूप में इक्विटी शेयर रखते हैं, तो कृपया अपने डीमैट खाते में अपना बैंक विवरण अपडेट करें और आरटीए को अनुरोध पत्र के साथ अपडेटेड क्लाइंट मास्टर भेजें।

यदि शेयरधारक भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, तो कृपय फॉर्म आईएसआर-1, पैन/पैन की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में), मूल रद्द चेक (उस पर पहले धारक का नाम मुद्रित) या बैंक प्रबंधक द्वारा विधिवत सत्यापित एमआईसीआर कोड, आईएफएससी और खाता संख्या वाली बैंक पासबुक की प्रति, फोॅर्म आईएसआर-2 (हस्ताक्षर हमारे रिकॉर्ड से मेल नहीं खाने / या गुम होने की रिचति में) और फॉर्म एसएच 13 या फॉर्म आईएसआर-3 (जिसे आर एटीए) की वैबसाइट www.masserv.com से डाउनलोड किया जा सकता है) के माध्यम से जमा करें।

इस संबंध में, कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पते पर साधारण डाक द्वारा पत्र भी भेजे हैं,जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने हैं। यदि इस विषय पर आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट

से संपर्क कर सकते हैं: मेसर्स एमएएस सर्विसेज लिमिटेड

टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-11, नई दिल्ली- 110020

दूरमावः 011-26387281-83, फैक्सः 011-7384,

इमेलः invstor@masserv.com

दिनांकः 30.07.2025 स्थानः नोएडा

(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

टाटा कैपिटल लिमिटेड रजि. कार्यालयः ११वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव टाटा TATAकदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बल-400013

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

(सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार) यह सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल) एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई– 400013 में है और नई दिल्ली में अन्य स्थानों के अलावा एक शाखा कार्यालय है (''शाखा'')। 24.11.2023 के आदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ धारा 230 से 232 के प्रावधानों के तहत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("टीसीएफएसएल") और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड (''टीसीसीएल'') के बीच हस्तांतरणकर्ता के रूप में और टाटा कैपिटल लिमिटेड (''टीसीएल'') के बीच हस्तांतरणकर्ता के रूप में व्यवस्था की योजना को विधिवत मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल (ट्रांसफरर कंपनियां) अपने उपक्रम के साथ टीसीएल के साथ एक

चालू व्यवसाय के रूप में विलय हो गए हैं, साथ ही सभी संपत्तियां, परिसंपत्तियां, अधिकार, लाभ, ब्याज, कर्तव्य, दायित्व, देनदारियां, अनुबंध, समझौते, प्रतिभूतियां आदि 01.01.2024 से प्रभावी हैं। उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में, टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज और उसके संबंध में सभी बकाया आवेदक कंपनी को हस्तांतरित हो गए और इस प्रकार टीसीएल इसके अनुसार ख्उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं, से दावा करने का हकदार है। जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन

अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दिए अनुसार डिमांड नोटिस–29.04.2025 जारी करते हुए उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि वापस करने का आह्वान करते हैं। उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का

प्रतीकात्मक / रचनात्मक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन टाटा कैपिटल लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसके लिए नीचे उल्लिखित राशि के साथ-साथ उस पर ब्याज और दंडात्मक

ब्याज, शुल्क, लागत आदि मांग नोटिस की तिथि से देय होंगे। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

ऋण खाता संख्या	दायित्वधारी(ओं) /कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) /कानूनी प्रतिनिधि (ओं) कानाम	डिमांड नोटिस की राशि और तिथि	सांकेतिक कब्जा की तिथि	
TCFLA03 59000012 663056		रूप्ये 26,58,185. 00 /— और 29.04.2025	29.07.2025	

संपत्ति का विवरणः प्लैट संख्या ४, एचआईजी प्रकार का भूतल (छत के अधिकार के बिना), जिसमें एक ड्राइंग-कम-डाइनिंग रूम, तीन शयनकक्ष, एक रसोईघर और शौचालय निर्मित है। इसका सूपर एरिया 95.08 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया 81.32 वर्ग मीटर और शेष खुला एरिया 148.17 वर्ग फीट यानी 13.76 वर्ग मीटर है। यह नेहरू नगर, गाजियाबाद-201001 में स्थित प्लॉट संख्या 3-बी-9 पर निर्मित है, जिसका विशेष विवरण श्री संजय शर्मा द्वारा श्रीमती अरविंदर कौर के पक्ष में दिनांक 12.11.2021 को निष्पादित बिक्री विलेख में दिया गया है। यह दस्तावेज संख्या 9271, पुस्तक संख्या / खंड संख्या 18466, पृष्ठ 35 से 72 के रूप में विधिवत पंजीकृत है, जो दिनांक 12.11.2021 को एसआरओ—गाजियाबाद—। में पंजीकृत है। सीमाः पूर्वः प्लॉट संख्या ३ — बी / 10, पश्चिमः प्लॉट संख्या 3 - बी / 8. उत्तरः सडक 10 फीट चौडी। दक्षिणः सर्विस लेन 10 फीट

दिनांकः 31.07.2025 हस्ता / – अधिकृत अधिकारी। टाटा कैपिटल लिमिटेड के लिए स्थानः गाजियाबाद,

ACE

एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड सीआईएनः L74899HR1995PLC053860

रजि. कार्यालयः दृधौला लिंक रोड, दृधौला, जिला पलवल-121102, हरियाणा फोनः +91-1275-280111 (50 लाइनें), फैक्सः +91-1275-280133 वेबसाइटः www.ace-cranes.com ईमेल जाईडीः cs@ace-cranes.com

सूचना कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) डीमैट खाते में स्थानांतरण यह सुचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 की उपचारा (6) और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण

निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, स्थानांतरण और प्रतिदेश) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित की जाती है, जिसमें इसका कोई भी संशोधन और पुर्नअधिनियमन शामिल हैं। उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए, कंपनी उन सभी शेयरों को, जिनके संबंध में वित्त वर्ष 2017-2018 (अंतिम लाभांश) से लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) के नाम पर नियत तिथि अर्थात 31 अक्टबर, 2025 तक निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और प्रतिदेय) नियमावली, 2016 के अनुसार हस्तांतरित कर देगी, जिसमें इसका कोई भी संशोधन और पूर्नअधिनियमन शामिल है।

तदनुसार, कंपनी ने सभी संबंधित शेयरधारकों को कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (RTA) रिकॉर्ड में पंजीकृत उनके पते पर सुचित कर दिया है, जिनके शेयर IEPF प्राधिकरण वे संबंधित खाते में स्थानांतरित किए जाने योग्य है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.acecranes.com पर तथाकथित शेयरघारकों के नाम और उनके फोलियो नंबर या डीपी आईडी-ग्राहक आईडी सहित उनके शेयरों का पूरा विवरण भी अपलोड किया है, जिन्हें IEPF खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है।

शेयरबारक कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त शेयरों के IEPF प्राधिकरण के डीमेंट खातों में जमा करने के बाद, कथित शेयर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के उपरोक्त नियमों में निर्धारित प्रक्रिया और प्रावधानों के अलावा, किसी भी अन्य तरीके से बिक्री या हरतांतरण या निपटान के लिए शेयरधारक के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

कुपया इस पर भी ध्यान वें कि दावा नहीं किए गए लामांश और संबंधित शेयर, ऐसे शेयरों पर अर्जित सभी भविष्य के लाभों सहित, यदि कोई हो, एक बार IEPF प्राधिकरण को हस्तांतरित होने के बाद, जपरोक्त नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद IEPF प्राधिकरण से वापस दावा किया जा सकता है।

जिन शेयरघारकों के पास भौतिक रूप में शेयर रखे हैं और जिनके शेयर IEPF डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जाने योग्य हैं, वे ध्यान दें कि कंपनी शेयरधारकों द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र के बदले में दुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। दुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के बाद, कंपनी दुप्तिकेट शेयर प्रमाणपत्रों को डीमैट रूप में परिवर्तित करने और प्राधिकरण के पक्ष में स्थानांतरित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से डिपॉजिटरी को सुवित करेगी। डीमैंट रूप में रखें गए शैयरों के संबंध में, कंपनी जन शैयरधारकों के खातों के संबंध में प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरण हेतु कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से डिपोंजिटरी को सूचित करेगी।

संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष 2017-2018 (अंतिम लाभाश) और उसके बाद के लिए गैर-दावा के लामांश का दावा करने के लिए 15 अक्टूबर, 2025 तक कंपनी /आरटीए को आवेदन कर दें, जिसके बाद उनके शेयर IEPF डीमेंट खाते में स्थानांतरित कर दिए जाएँमे। गैर-दावा लाभांश का दावा करने के लिए या यदि आपको किसी भी जानकारी / स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो कृपया कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर इस्तांतरण एजेंट, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को admin@skylinerta.com, cs@ace-cranes.com पर ईमेल करें।

> कृते एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड हस्ता/-

दिनांकः ३० जुलाई, २०२५ स्थानः पलवल

अनिल कुमार कंपनी सचिव



गणपतराव टाटा कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बल-400013 कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

यह सूचित किया जाता है कि **टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल)** एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनस्ल बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई— 400013 में है और नई दिल्ली में अन्य स्थानों के अलावा एक शाखा कार्यालय है ("शाखा")। 24.11.2023 के आदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ धारा 230 से 232 के प्रावधानों के तहत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("टीसीएफएसएल") और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड (''टीसीसीएल'') के बीच हस्तांतरणकर्ता के रूप में और टाटा कैपिटल लिमिटेड (''टीसीएल'') के बीच हस्तांतरणकर्ता के रूप में व्यवस्था की योजना को विधिवत मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल (टांसफरर कंपनियां) अपने उपक्रम के साथ टीसीएल के साथ एक चाल व्यवसाय के रूप में विलय हो गए हैं. साथ ही सभी संपत्तियां. परिसंपत्तियां. अधिकार, लाभ, ब्याज, कर्तव्य, दायित्व, देनदारियां, अनुबंध, समझौते, प्रतिभूतियां आदि 01.01.2024 से प्रभावी हैं। उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में, टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज और उसके संबंध में सभी बकाया आवेदक कंपनी को हस्तांतरित हो गए और इस प्रकार टीसीएल इसके अनसार

ख्उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं, से दावा करने का हकदार है। जबिक, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पूनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दिए अनुसार डिमांड नोटिस- 23.04.2025 जारी करते हुए उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि वापस करने का आह्वान करते हैं। उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य

रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के नियम 8 के साथ पिटत धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक / रचनात्मक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने

की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन टाटा कैंपिटल लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा. जिसके लिए नीचे उल्लिखित राशि के साथ-साथ उस पर ब्याज और दंडात्मक ब्याज. शूल्क, लागत आदि मांग नोटिस की तिथि से देय होंगे। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया

जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

ऋण	दायित्वधारी(ओं) / कानूनी उत्तराधिकारी(ओं)	डिमांड नोटिस की	सांकेतिक			
खाता	/ कानूनी प्रतिनिधि (ओं) कानाम	राशि और तिथि	कब्जा की			
संख्या			तिथि			
5800999	1. अजय बरुआ, पुत्र विकास रंजन बरुआ, फ्लैट संख्या	रूप्ये	29.07.2025			
&	226—बी, पॉकेट सी, प्रथम तल, सिद्धार्थ एक्सटेंशन,	1,04,35,127/-	03855c3c3555			
5827661	नई दिल्ली—110014, मोबाइलः +91—9811272730,	और 23.04.2025				
	ईमेलः BARUA@HOTMAIL.COM,					
	पताः प्लॉट संख्या डी—20, बेसमेंट सिद्धार्थ नगर,					
	नई दिल्ली—110014।					
	2. श्रीमती झूमा बरुआ, पत्नी अजय बरुआ, फ्लैट संख्या					
	226—बी, पॉकेट सी, प्रथम तल, सिद्धार्थ एक्सटेंशन,					
	नई दिल्ली—110014, पताः प्लॉट संख्या डी—20, बेसमेंट,					
	सिद्धार्थ नगर, नई दिल्ली–110014					

संपत्ति का विवरणः संपत्तिः 1 – प्लैट संख्या 226 बी एन पॉकेट सी, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली, पहली मंजिल, दिल्ली 110014 पर स्थित। अधिक विवरण दिनांक 11/10/2004 के हस्तांतरण विलेख में उल्लिखित है। यह सब रिजस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के पास दस्तावेज संख्या 8640 के रूप में. पस्तक संख्या । खंड संख्या १२५० के पष्ट १७७–१८० पर, दिनांक १२/१०/२००४ को

संपत्तिः 2 – एमसीडी क्रमांक डी-20, सिद्धार्थ नगर, लगभग 130 वर्ग गज भूमि के साथ, खसरा संख्या 248 में समाहित, किलोकरी गांव का, उप पंजीयक-V, नई दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत बिक्री विलेखों के आधार पर (1) दस्तावेज 10321, अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 5164 पृष्ठ 25 से 34 पर, 07-07-2005 को, और (।।) दस्तावेज संख्या 18602, अतिरिक्त पुस्तक संख्या ।, खंड संख्या 5637, पृष्ठ 01 से 10 पर, 23–11–2005 को निष्पादित बिक्री विलेख के अनुसार

दिनांकः 31.07.2025 हस्ता/- अधिकृत अधिकारी। टाटा कैपिटल लिमिटेड के लिए स्थानः दिल्ली



एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 37, हरगोबिंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 कॉपोरेंट कार्यालयः एसजी सेंटर, ब्लॉक-बी, 37सी, सेक्टर 132, नोएडा - 201304 उत्तर प्रदेश टेलीफोन: 91-120-6918000 ; CIN: L74899DL1986PLC023443 ईमेलः investors@aplapollo.com; वेबसाइटः www.aplapollo.com

कंपनी के इक्विटी शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में हस्तांतरित करने के लिए शेयरधारकों को सुचना

यह सचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ पठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016, समय-समय पर यथा-संशोधित ("नियम") के अनुसार प्रकाशित की जा रही है। उक्त नियम उन शेयरों के व्यवहार का तरीका बताते हैं जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए लाभांश का दावा नहीं किया गया/अदत्त रहा है। उक्त नियमों के अनुसार, ऐसे शेयर, दावा न किए गए/अदत्त लाभांश के साथ, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ("आईईपीएफ") में हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। ऐसे शेयरधारकों की सची कंपनी की वेबसाइट https://aplapollo.com/downloads पर अपलोड

उक्त नियमों के अनुपालन में, उन शेयरधारकों को व्यक्तिगत नोटिस भेजे गए हैं, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतिम लाभांश के बाद से अपना लाभांश नहीं भुनाया है, या जिन्होंने अपने शेयरों के संबंध में न्यायालय/ट्रिब्यूनल/सांविधिक प्राधिकरणों, आदि से कोई आदेश प्राप्त किया है। ये नोटिस उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर और कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से भेजे गए थे, जिसमें उन्हें अपने दावा न किए गए/अदत्त लाभांश का दावा करने और ऐसे शेयरों को आईईपीएफ (निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष) में हस्तांतरित होने से बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अवसर दिया गया था।

संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द, लेकिन 3 नवंबर, 2025 से बाद नहीं, कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") को लाभांश के भुगतान के प्रमाण या प्रासंगिक दस्तावेज/आदेश आदि के साथ लिखें। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उन्हें भेजे गए व्यक्तिगत नोटिस देखें या अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड, ए-387, अभिप्रा कॉम्प्लेक्स, दिलखुश, जी.टी. करनाल रोड, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, आजादपुर, दिल्ली 110033 पर आरटीए से संपर्क करें या ईमेल आईडी: investors@aplapollo.com पर संपर्क करें (कृपया सभी पत्राचार में फोलियो/डीपी-क्लाइंट आईडी नंबर का उल्लेख करें)।

भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारक, जिन्होंने अभी तक अपना पैन, केवाईसी विवरण अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे फॉर्म करफ-1, फॉर्म करफ-2, पैन की स्व-सत्यापित प्रति (संयुक्त धारक के मामले में सभी धारकों की), एक रद्द चेक आदि कंपनी के आरटीए के पास जमा करके ऐसा करें। विस्तृत निर्देश और नमूना केवाईसी फॉर्म कंपनी की वेबसाइट https://aplapollo.com पर उपलब्ध हैं।

कृपया ध्यान दें कि यदि कंपनी को 3 नवंबर, 2025 तक संबंधित शेयरधारक से कोई संचार, जिसमें वैध दावा शामिल है, प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी बिना किसी और कार्रवाई या दायित्व के उनके शेयरों को आईईपीएफ के डीमैट खाते में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी।

इसके अतिरिक्त, डिमटेरियलाइजेशन के अंतर्निहित लाभों का लाभ उठाने के लिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग को जल्द से जल्द डिमटेरियलाइज्ड मोड में परिवर्तित करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://aplapollo.com पर जाएं। कृपया ध्यान दें कि यदि कंपनी को 3 नवंबर, 2025 तक संबंधित शेयरधारक से कोई वैध दावा

सिहत कोई संचार प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी बिना किसी और कार्रवाई या दायित्व के उनके शेयरों को आईईपीएफ के डीमैट खाते में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। इसके अतिरिक्त, डीमटेरियलाइजेशन के अंतर्निहित लाभों का लाभ उठाने के लिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग को जल्द से जल्द डीमटेरियलाइज्ड मोड में परिवर्तित करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://aplapollo.com पर जाएं। भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को फिर से जमा करने के लिए विशेष विंडो:

सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसार, भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को फिर से जमा करने की सुविधा के लिए 7 जुलाई, 2025 से 6

जनवरी, 2026 तक एक विशेष विंडो प्रदान की जा रही है। यह सुविधा केवल उन हस्तांतरण विलेखों के लिए उपलब्ध है जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले जमा किए गए थे और जिन्हें दस्तावेजीकरण या प्रक्रिया संबंधी मुद्दों के कारण अस्वीकृत, वापस कर दिया गया था, या जिन पर ध्यान नहीं दिया गया था। अनुरोध कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट(आरटीए) अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड, अभिप्रा कॉम्प्लेक्स, दिलखुश इंडस्ट्रियल एरिया, आजादपुर, जी.टी. करनाल रोड, नई दिल्ली 110033, टेलीफोनः 011-42390725 ,

ई-मेलः rta@abhipra.com को प्रस्तुत किया जा सकता है: नोटः फिर से जमा किए गए हस्तांतरण केवल डीमैट रूप में संसाधित किए जाएंगे। डीमैट खाता अनिवार्य है। निवेशकों को हस्तांतरण दस्तावेजों. शेयर प्रमाण पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ क्लाइंट मास्टर लिस्ट प्रदान करनी होगी। 6 जनवरी, 2026 के बाद कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा

एपीएल अपोलो दुयुब्स लिमिटेड के लिए स्थानः नोएडा दिनांकः 30 जुलाई, 2025

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

टाइगर लॉजिस्टिक्स (इंडिया) लिमिटेड

CIN: L74899DL2000PLC105817 **पंजीकृत कार्यालय**: डी-174, भूतल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली 110020

टेलीफोन नंबर: 011-47351111, फैक्स: 011-26229671 वेबसाइटः www.tigerlogistics.in, ईमेल आईडीः csvishal@tigerlogistics.in

बोर्ड की बैठक की सुचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 के अनुसार, एतद्द्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बधवार, 6 अगस्त 2025 को कंपनी के कॉपोरेंट कार्यालय में निम्नलिखित एजेंडा मदों पर विचार करने के लिए आयोजित की जाएगीः 1. 30 जुन 2025 को समाप्त तिमाही के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करना और उन्हें

अनुमोदित करना। निदेशक मंडल की रिपोर्ट के मसौदे पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

3. एजीएम की सूचना पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना। . आगामी वार्षिक आम बैठक के लिए तिथि, समय और मोड तथा उससे संबंधित अन्य आकरिमक और

सहायक उद्देश्यों पर विचार करना और उन्हें तय करना। . ई–वोटिंग के उद्देश्य से स्क्रूटिनाइजर और एजेंसी की नियुक्ति पर विचार करना।

6. शेयरधारकों को एजीएम के उद्देश्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("VC")/अन्य ऑडियो विजुअल साधन

("OVAM") प्रदान करने के लिए एजेंसी/सुविधा प्रदाता को नियुक्त करना। 7. बोर्ड की बैठक के एजेंडा में बताए गए अन्य मदों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना। इसके अतिरिक्त, दी गई सचना के अनुसार, सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015 यथा-संशोधित और कंपनी की प्रतिभूतियों के व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के

दिनांक 02.04.2019 के अनसरण में. कंपनी की प्रतिभतियों में व्यापार के लिए टेडिंग विंडो कंपनी के सभी "नामित व्यक्तियों" के लिए 1 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की स्टॉक एक्सचेंज को घोषणा के 48 घंटे बाद तक (दोनों दिन सम्मिलित) पहले ही बंद कर दी गई थी।

लिए कंपनी की आचार संहिता के साथ पठित बीएसई परिपत्र संख्या LIST/COMP/01/2019-20

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.tigerlogistics.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। टाइगर लॉजिस्टिक्स (इंडिया) लिमिटेड के लिए

विशाल सौरभ गुप्ता कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

O HDB in 7 M एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 30.07.2025

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, दूसरी मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड: 380009 **शाखा कार्यालयः** ई-145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी-स्कीम, जयपुर राजस्थान 302001

जबिक, **एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 64) के तहत और धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सुरक्षा के नियम 3 के साथ ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 ने उधारकर्ता को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता से भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि को तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है। उक्त उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम आर की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उल्लिखित तिथि पर यहां वर्णित संपत्ति पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया गया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन संबंधित तिथि से भविष्य के ब्याज, लागत और शुल्क के साथ यहां निर्दिष्ट राशि के लिए **एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** के शल्क के अधीन होगा। उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर का विवरण, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, सुरक्षा का विवरण, मांग नोटिस की तारीख, दावा की गई राशिय कब्जे की तारीख यहां नीचे दी गई है

1) उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम और पता, 2) ऋण खाता संख्या, 3) ऋण राशि 4) मांग सूचना की तारीख, 5) दावा की गई राशि भारतीय रूपये में 6) प्रतिभूतियों का विवरण 7) कब्जा की तिथि

उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता का नाम : 1. मैक्स हार्डवेयर एंड सेनेटरी स्टोर, दकान नंबर 8.9.10 सिवांसी गांची ममाज भवन जेरला बालोतरा, बालोतरा–344022 राजस्थान, और इसके अलावा– खसरा नंबर 246 वार्ड नंबर 20 रबारियों का टांका बालोतरा–344022 राजस्थान, 2. अशोक कुमार, दुकान नंबर 8,9,10 सिवांसी गांची समाज भवन जेलरा बालोतरा, बालोतरा–344022 राजस्थान, 3. ललिता देवी, रबारियों का टांका बाडमेर बालोतरा–344022 राजस्थान। ऋण खाता संख्या 30662261 ऋण राशिः रु. 35,55,000 / – (शब्दों में रुपए पैंतीस लाख पचपन हजार मात्र), **मांग सूचना दिनांकः** 15.04.2025, **दावा की गई राशिः** रुपए 33,22,632.50 (रुपए तैंतीस लाख बाईस हजार छह सौ बत्तीस और पचास पसे मात्र) 09.04.2025 तक और वास्तविक वसूली तक भविष्य का संविदात्मक ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि। **सुरक्षा का विवरणः** आवासीय भूखंड का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल खसरा नंबर 246, वार्ड नंबर 20, रबारियों का टांका, बालोतरा तहसील पचपड़ा जिला बाड़मेर राजस्थान में स्थित है। क्षेत्रफल 955.50 वर्ग फीट, उत्तर की ओर सीमाः श्री प्रभलाल परमार की संपत्ति, दक्षिणः रोड, पर्वः बाबलाल घाची की संपत्ति, पश्चिमः श्री मदनलाल/मेघाराम की संपत्ति। ७) भौतिक कब्जे की तिथिः 25-07-2025

उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नामः 1. सश्री खंडेवाल यनिफॉर्मिटी सॉल्यशंस. खंडेवाल यनिफॉर्मिटी सॉल्यशंस पाली बाजार ब्यावर –305901 राजस्थान, और इसके अलावा: श्रद्धानंद बाजार नंबर 04. क्षेत्र नंबर 7. प्रस्ताव संख्य 47. पाली बाजार श्रद्धानंद ब्यावर ई– ओसवाली पंचायती नोहरा ई– प्रो. मिट्टी का ब्यावर–305901 राजस्थान, **2.** यश खंडेलवाल, 128, राम भवन डिग्गी मौहल्ला ब्यावर—305901 राजस्थान, 3. सरोज खंडेलवाल, वार्ड नंबर 09, स्त्री नंबर १२८ डिग्गी मोहल्ला राम भवन ब्यावर—305901 राजस्थान 4 कमल किशोर खडेलवाल १२८ राम भवन डिग्गी मोहल्ला ब्यावर–305901 राजस्थान, 5. पीयष खंडेलवाल, खंडेलवाल यनिफॉर्मिटी सॉल्यशंस पाली बाजार ब्यावर–305901 राजस्थान। ऋण खाता संख्या 14118271 **ऋण राशिः** रु. 30,00,000 / — (शब्दों में तीस लाख रुपये मात्र), **मांग सचना दिनांक:** 15.04.2025, **दावा की गई राशि:** 09.04.2025 तक 26.26.571.33 रुपये (छब्बीस लाख छब्बीस हजार पांच सौ इकहत्तर रुपये और तैंतीस पैसे मात्र) और वास्तविक वसूली तक भविष्य का संविदात्मक ब्याज, साथ में आकिस्मक व्यय, लागत और शुल्क आदि। अचल संपत्तियों का विवरणः वाणिज्यिक संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल नगरपालिका संख्या 47 भिम क्षेत्र 33.20 वर्ग गज. श्रद्धानंद बाजार संख्या 04. क्षेत्र संख्या 7. संपत्ति संख्या 47. पाली बाजार श्रद्धानंद ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है। 7) भौतिक कब्जे की तिथि: 26-07-2025

उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नाम : 1. सुश्री सिमरन इंडस्ट्री इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, खसरा नंबर 449311. 260.

श्री राम नगरजोधपुर—342001 राजस्थान, और प्लॉट नंबर 260 और 261, खसरा नंबर 449/311, श्री राम नगर योजना, ग्राम कुरी भगतासनी, तहसील और जिला में स्थित है। जोधपुर-342001 राजस्थान, 2. फरजाना एस, भिश्तियों की मस्जिद के सामने नई सड़क जोधपुर-342001 राजस्थान, 3. मो साबिर, 103-104, स्टेडियम शॉपिंग सेंटर के पीछे जोधपुर—342001 राजस्थान। ऋण खाता संख्या 19729880 **ऋण राशिः** रु.30,00,000/— (शब्दों में तीस लाख रुपये मात्र), **मांग सूचना दिनांकः** 09.04.2025, **दावा की गई राशिः** रु.32,71,327.00 (बत्तीस लाख इकहत्तर हजार तीन सौ मत्ताईस रुपये मात्र) ०९.०४.२०२५ तक और वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज, साथ में आकस्मिक व्यय, गगत और शुल्क आदि। प्रतिभूतियों की अनुसूची प्लॉट संख्या 260 वाली संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल, खसरा संख्या ४४९/३११, श्री राम नगर योजना, गांव कुरी भगतासनी तहसील और जिला जोधपुर–३४२००१ राजस्थान में स्थित है। क्षेत्रफल 191.66 वर्ग गज, पूर्व की ओर सीमाः प्लॉट संख्या 271, पश्चिमरू 30 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः प्लॉट संख्या २६१, दक्षिणः प्लॉट संख्या २५९। प्रतिभूतियों की अनुसूची प्लॉट संख्या २६१ वाली संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल, खसरा संख्या 449/311, श्री राम नगर योजना, गाँव कुरी भगतासनी तहसील और जिला जोधपुर–342001 राजस्थान में स्थित हैं। माप क्षेत्र 191.66 वर्ग गज, पूर्व की ओर सीमाः प्लॉट संख्या 270, पश्चिमः 30 फीट चौड़ी सडक, उत्तरः 40 फीट चौडी सडक, दक्षिणः प्लॉट संख्या २६०। ७) भौतिक कब्जे की तिथिः 25-07-2025

उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नाम: 1. प्रकाश इंटरप्राइजेज, सिलोरा रीको औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़-305801 राजस्थान और इसके अलावा: प्रोप स्थित शिवाजी नगर मदनगंज किशनगढ़ तह किशनगढ़ किशनगढ़—30580: शर्मा, उपाध्याय सदन मेन रोड शिवाजी नगर किशनगढ़–305801 राजस्थान, 4. शांता देवी शर्मा, उपाध्याय सदन मेन रोड शिवाजी नगर किशनगढ–305801 राजस्थान। ऋण खाता संख्या 27545300 **ऋण राशिः** रु. 37,00,000 / – (शब्दों में रुपए सैंतीस लाख मात्र), **मांग सूचना दिनांक:** 15.04.2025, **दावा की गई राशि:** रुपए 34,63,107.50 (रुपए चौंतीस लाख तिरसठ हजार एक सौ सात और पचास पैसे मात्र) 09.04.2025 तक और वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि। सुरक्षा का विवरणः संपत्ति का वह पुरा टुकड़ा और पार्सल शिवाजी नगर, मदनगंज तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है। 200 वर्ग गज का क्षेत्रफल, उत्तर की ओर घिराः श्री बंचू लाल डोभी का मकान, दक्षिणः श्री मदन लाल खटीक का मकान और श्री धर्मी चंद जैन का मकान, पूर्वः मकान का मुख्य द्वार और मुख्य सड़क, पश्चिमः नगरपालिका बोर्ड की भूमि। 7) **भौतिक कब्जे की तिथिः** 25-07-2025

उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं का नामः 1. पुरूषोत्तम तम्बोली (कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से मृतक) ए) ज्योति यदुवंशी पत्नी स्वर्गीय पुरूषोतम तम्बोली (कानूनी उत्तराधिकारी), 1171 पंचोली मोहल्ला बस्सी जयपूर-303301 गजस्थान, बी) गौरांश तम्बोली पत्नी ज्योति तम्बोली (कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से नाबालिग) (कानूनी उत्तराधिकारी), 1171 पंचोली मोहल्ला बस्सी जयपुर—303301 राजस्थान, और इसके अलावारू विलगाए पंचोली मोहल्ला, तहसील बस्सी, बस्सी जयपुर–303301 राजस्थान में स्थित भूमि का भाग, 2. विष्णु तम्बोली, 1171 पंचोली मोहल्ला बस्सी जयपुर—303301 राजस्थान, 3. ज्योति यदुवंशी, 1171 पंचोली मोहल्ला बस्सी जयपुर—303301 राजस्थान, 4. गौराष्टम्बोली, 1171 पंचोली मोहल्ला बस्सी जयपुर—303301 राजस्थान। ऋण खाता संख्या 31506908, 54543739 **ऋण राशिः** ^{5.}56,00,000 / — (शब्दों में छप्पन लाख रुपये मात्र), ऋण खाता संख्या 31506908 **द्वारा और ऋण राशि** रु.14,34,738 / – (चौदह लाख चौंतीस हजार सात सौ अड़तीस रुपये मात्र) ऋण खाता संख्या 54543739 द्वारा मांग सचना दिनांकः 15.04.2025. **दावा की गई राशिः** 09.04.2025 तक रु. 66.27.283.33 (छियासट लाख सत्ताईस हजार दो सौ तिरासी और तैंतीस पैसे मात्र) और आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ वास्तविक वसूली तक भविष्य का संविदात्मक ब्याज। सुरक्षा का विवरणः सभी टुकड़े और पार्सल गाँव बस्सी, तहसील बस्सी जयपुर राजस्थान में भूखंड सहित संपत्ति का एक भाग। क्षेत्रफल 161.00 वर्ग गज (इसके बाद उक्त संपत्ति कहा जाएगा) पूर्व में राजकुमार पंचोली का मकान, पश्चिम में 15 फीट का रास्ता, उत्तर में रामविलास सर्राफ का मकान, दक्षिण में रामजीलाल तंबोली

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो सरक्षित परिसंपत्ति को भनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री मोहम्मद शाहनवाज 9027267829 एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड शाखा कार्यालयः ई-145, द्वितीय तल रमेश मार्ग सरदार पटेल माग के सामने सी-स्कीम जयपुर, राजस्थान - 302001 से

संपर्क करें: हस्ता/- एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए, स्थानः जयपुर,

का नोहरा। 7) भौतिक कब्जे की तिथिः 25-07-2025

हस्ता. / – प्राधिकृत अधिकारी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

दिनांकः 31/07/2025 प्राधिकृत अधिकारी

- Fire ambini Houses Un

अधिग्रहण कर लिया है।

केन फिन होम्स लिमिटेड सीआईएन : L85110KA1987PLC008699 एससीओ 34 एवं 35, प्रथम तल, केनरा बैंक के ऊपर, सेक्टर 10ए, गुड़गाँव

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु) [नियम 8(1)] जबकि अधोहरताधरकर्ता ने कैन फिन होन्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित उक्त अधिनियम की पारा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मॉग सुवना निग्न अंकित तिथियों पर निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ताओं / गारंटरों को, सूचना में ऑकेत राशि का राशि पर वसूलीकरण की तिथि तक संविदागत दरों पर नियत भावी ब्याज सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रतिभगतान करने कहा गया था।

उधारकर्तागण निर्धारित राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, प्रत्येक उधारकर्ता के समक्ष, यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियाँ के प्रयोगांतर्गत, यहां इसमें इसके उपरांत निम्न तालिका में अंकित तिथियों पर

क सं	ज्यारकर्ताओं तथा गारंटरों के नाम	संपत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा की तिथि
1.	श्री राहुल कोठारी पुत्र श्री राजेंदर प्रसाद तथा श्री अतुल कोठारी पुत्र श्री राजेंदर प्रसाद तथा श्री सहदेव प्रमाणिक पुत्र श्री रमेश चंद्र प्रमाणिक	पलैट नं 301, तृतीय तल, सामने दाई ओर, यश अपार्टमेंट, खररा नं 11146/4365— 66/3217/79, 11147/4365—66/3217/79, 11142/4365—66/3217, 11143/4365—66/3217, 11148/4865—66/3217, 11144/4365—66/79, 11145/4365—66/3217/79, इलॉक— जी, एकता वाली गली, राजेंद्र पार्क, गुरुग्राम, हरियाणा, पिन— 122001 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसी, मित है :— उत्तर— पलैट नं 302, पूर्व— सीढ़ियाँ, पश्चिम— सड़क, दक्षिण— अन्य संपत्ति।	06/05/2024	रु 29,01,508 /— (रुपये उनतीस लाख एक हजार पाँच सी आठ मात्र)	25/07/2025
2.	मोह. इस्तियाज पुत्र मोह. जहीर और मोबिना खातून	पलैट नं 208, प्रथम तल, रोशन विला के नाम विदित मवन, खसरा संख्या 3682 मिन, गाँव– पसोंदा, परगना– लोनी, तहसील तथा जनपद– गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित	05/05/2024	रु 22,40,040 / — (रुपये बाईस लाख चालीस	26/07/2025

उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिमृत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त कराने के लिये उपलब्ध समय के परिप्रेड्य में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। एतदहारा जधारकर्ताओं को विशेष रूप में तथा सर्वसाधारण को सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, यहां इसमें उपरोक्त तालिका में प्रत्येक संपत्ति के समझ वर्णित राशि

तथा निम्नानुसार परिसीमित है :- उत्तर- हाजी कारू और

रहीम का प्लॉट, पूर्व- विक्रेता का प्लॉट, पश्चिम- 25' चौड़ा

रास्ता, दक्षिण- विक्रेता का प्लॉट।

तथा वसुलीकरण की तिथि तक राशि पर नियत भावी ब्याज हेतु सीएफएचएल के प्रभाराधीन होगा। दिनोंक : 30-07-2025

असलम कुरैशी

बरकत कुरेशी पुत्र मोह,

इस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी कैन फिन होम्स लिमिटेड

हजार चालीस



गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –201005

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : "चोला क्रेस्ट", सी 54 एवं 55, सुपर बी–4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600032, भारत शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली—110005 कॉन्टैक्ट नंबर : श्री श्रीनिवास वी, मोबाइल नंबर 9643344410 एवं श्री ऐश्वर्य शांडिल्य, मोबाइल नंबर 9582246969

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतदद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार / सह–कर्जदार / बंधकदता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका सांकेतिक कब्जा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड इसमें आगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड कही जाएगी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। प्रतिभूत आस्तियां "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहां हे" आधार पर ई—नीलामी के माध्यम से बेची जाएंगी। एतदृद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि हम ई–नीलामी का संचालन वेबसाइट https://chola-lap.procure247.com/ के माध्यम से करेंगे।

क्र. सं.	खाता संख्या तथा कर्जदार, सह—कर्जदार, बंधकदाताओं का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति / सम्पत्तियों का वर्णन	सुरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा एवं बोली वृद्धि राशि (रू. में)	ई—नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी जमा की अंतिम तिथि, निरीक्षण की तिथि
1.	ऋण खाता सं. X0HEEDL00001411453	20-07-2022	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर		
	1. नरेन्द्र कुमार आनंद	रू. 20,72,319.64 ∕ —	ए—1/93, पर निर्मित आवासीय एमआईजी	र्फ. 13,77,000 ∕ —	22-08-2025
	प्लॉट नंबर ए—1/93, डीएलएफ कालोनी, दिलशाद एक्सटेंशन,		फ्लैट, छत के अधिकार नहीं, सुपर कवर्ड	रू. 1,37,700 ∕ —	पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक
	गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश —201005	कब्जा का प्रकार	एरिया 72.06 वर्ग मीटर, जो आवासीय	₹50,000/-	21-08-2025
	अन्य पता : 54-ए/3/2, प्रथम तल, जीटी रोड, दिलशाद गार्डन,	भौतिक	कालोनी, डीएलएफ एक्सटेंशन—।।, ग्राम		पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक
	गाजियाबाद, दिल्ली–110095	16.	बरहामपुर उर्फ भोपुरा, तहसील और जिला ग	ाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित	भेंट के निर्धारित समयानुसार
	2. रूपा रानी		है। निम्नानुसार परिबद्ध : पूरब : प्लॉट नंबर	ए—1 / 92, पश्चिम : प्लॉट नंबर	नंद क लियारत समयानुसार
	प्लॉट नंबर ए—1/93, डीएलएफ कालोनी, दिलशाद एक्सटेंशन,		ए—1 / 94, उत्तर : 30 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण		

1. आईओएन—नोटिसेज। विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ई—नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सम्पर्क करें (मुहम्मद रहीस – 81240 00030), Ms.procure247.com (सम्पर्क व्यक्ति : वासू पटेल — 9510974587)

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस भी है

2 ई-नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया https://chola-lap.procure247.com/ एवं https://cholamandalam.com/auction-notices देखें।

epaper.jansatta.com

स्थान : दिल्ली / एनसीआर, दिनांक : 29-07-2025